

KEVA



ऊर्जा से भरपूर  
रहने के साथ  
स्वस्थ रहने में  
मदद करता है

कीवा गोजीबेरी ड्रॉप्स

# गोजीबेरी

KEVA

गोजीबेरी कम से कम तीसरी शताब्दी से पारंपरिक चीनी, कोरियाई, वियतनामी और जापानी दवा में एक घटक रहा है।

समय के साथ, लोगों ने कई सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बुखार, और उम्र से संबंधित आंखों की समस्याओं के इलाज के लिए गोजीबेरी का उपयोग किया है। गोजी बेरी को कच्चा, पकाकर या सुखाकर (किशमिश की तरह) खाया जाता है और हर्बल चाय, जूस, वाइन और दवाओं में उपयोग किया जाता है।



KEVA



कीवा गोजीबेरी ड्रॉप्स  
विशेष रूप से ताज़ा  
कटी गई जड़ी बूटियों  
और बेरी से तैयार किया  
जाता है जो ऊर्जा से  
भरपूर होने के साथ  
स्वस्थ रहने में मदद  
करता है

# उच्चतम गुणवत्ता वाला उत्पाद

KEVA



हमारे उत्पाद को बाजार के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए शुद्धतम गुणवत्ता वाले अवयवों के साथ संसाधित किया जाता है

यह अत्यधिक स्वच्छ परिस्थितियों में और गुणवत्ता विभाग की सख्ती के तहत निर्मित और पैक जाता है




# मुक्त कणों के नुकसान से बचाता है



मुक्त कण प्रोटीन,  
डीएनए, और  
कोशिका झिल्ली  
जैसे सेल भागों  
को नुकसान  
पहुंचाते हैं जिससे  
कई स्वास्थ्य  
समस्याएं हो  
सकती हैं

# ऑक्सीकरण रोधी सुरक्षा



सुपर एंटीऑक्सिडेंट बेरी और जड़ी बूटियों के मिश्रण के साथ तैयार होने के कारण कीवा गोजीबेरी ड्रॉप्स एंटीऑक्सिडेंट सुरक्षा प्रदान करता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को बढ़ावा दे सकता है और आपके स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है

# यह इतना प्रभावी क्यों है?

KEVA

कीवा गोजीबेरी ड्रॉप्स दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली, उच्च **ORAC** स्कोरिंग बेरीज और फलों के अर्क जैसे गोजीबेरी (वोल्फबेरी), अकाई, मैंगोस्टीन, अनार, लाल कॉफ़ी फल, मस्कैडिन ग्रेप और ब्लूबेरी की आपूर्ति करता है

# गोजीबेरी- एक जादुई दीर्घायु जड़ी बूटी

कई नैदानिक अध्ययनों से यह पाया गया कि गोजी सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज (प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम) और हीमोग्लोबिन के सीरम स्तर का समर्थन करता है

वैज्ञानिक प्रमाण पारंपरिक धारणा का समर्थन करते हैं कि गोजी बेरी का नियमित रूप से सेवन करने से हृदय स्वास्थ्य, अग्न्याशय और लिवर, प्रतिरक्षा कार्यों, नेत्र स्वास्थ्य, मनोदशा और कामेच्छा में सहायता मिल सकती है





KEVA



# स्वास्थ्य लाभ




# KEVA



- ✓ रक्त परिसंचरण को बढ़ाने में मददगार
- ✓ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम कर सकता है
- ✓ हृदय रोगों के खतरे को रोक सकता है
- ✓ चिकित्सा की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है
- ✓ त्वचा की समस्याओं में मदद प्रदान कर सकता है
- ✓ लिवर विकार को रोका जा सकता है
- ✓ दृष्टि को बढ़ा सकता है और मोतियाबिंद को रोक सकता है

- ✓ प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज को मजबूत कर सकता है
- ✓ शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक
- ✓ ऊर्जा और सहनशक्ति बढ़ाता है
- ✓ तनाव, थकान और थकावट को कम करता है
- ✓ एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधि होने के कारण, इसका उपयोग मांसपेशियों की सृजन में किया जा सकता है
- ✓ स्मृति में सुधार कर सकता है, अल्जाइमर रोग में इस्तेमाल किया जा सकता है

KEVA



# सेवन का तरीका

KEVA



- सुबह और शाम 10 बूँदें खाली पेट या भोजन से आधे घंटे पहले लें
- बेहतर परिणाम के लिए 6-12 महीने तक जारी रखें

- गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें



संपर्क करें

# कीवा इंडस्ट्रीज

वेबसाइट: [www.kevaind.org](http://www.kevaind.org)

# धन्यवाद

यह उत्पाद कोई दवा नहीं है और किसी भी बीमारी का इलाज, निदान या रोकथाम इलाज करने के लिए नहीं है। कृपया अपने स्वास्थ्य चिकित्सक से परामर्श करें।